

buying them from abroad. We want to manufacture them in course of time. Therefore, we have entered into this collaboration.

SHRI N. SHIVAPPA : May I know whether the wheels and other parts which will be designed and manufactured by the Dunlop Company will suit the requirements of all our planes and if not, for which particular planes these parts will be designed and manufactured by this company? May I know whether before entering into an agreement with the Dunlop Company, we had called for quotations for designing and manufacturing the various parts from aeronautic companies in various parts of the world and if so, what are the details thereof?

SHRI L. N. MISHRA : These wheels are meant only for HF 24 and HJT 16, i.e. the Kiran. So far as the other part of the question is concerned, I have already said that they took into consideration other rubber companies also abroad, who have been supplying wheels for other aircraft, especially in UK and they came to the conclusion that Dunlop will be suitable since we have been purchasing from them so far mostly.

PRODUCTION AND IMPORT OF NEWSPRINT

*721. **SHRI SITARAM KESRI :** Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the quantity of Newsprint produced in the country and the total requirement of the same at present;

(b) whether newsprint is being imported and if so, the countries from which imports are made; and

(c) whether Government would consider the setting up of new plants for manufacture of newsprint to meet the requirements in full?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI NANDINI SATPATHY) : (a) The quantity of newsprint produced in the country is 30,000 m/tons per annum.

On the basis of the Newsprint Allocation policy for the year 1967-68, the total requirement has been estimated at 1,70,000 m/tons.

(b) Yes, Sir, from U.S.S.R., Czechoslovakia, Poland, U.S.A., Canada and Scandinavian countries.

(c) Yes, Sir. Some proposals to set up new plants for the manufacture of newsprint are under the active consideration of the Government. The rated capacity of Nepa Mills is also being increased from 30,000 to 75,000 m/tons.

श्री सीताराम केशरी : अख्तवारी कागज के उत्पादन के लिए जो फैक्ट्रियां आप विठायेंगे ये कब तक बँट जायेंगी और क्या ये पब्लिक सेक्टर में बँटेंगी या प्राइवेट सेक्टर में बँटेंगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : चार फैक्ट्रियां बनाने की कोशिश हो रही है। हिमाचल की फैक्ट्री के लिए तो नैंगो शिफ्ट पूरा हो गई है और शायद थोड़े दिनों में वह फाईनलाइज हो जाएगी। उसके अलावा एक महाराष्ट्र में बनाने की कोशिश है, एक उत्तर प्रदेश में, एक केरल में और एक मध्य प्रदेश में।

श्री सीताराम केशरी : इन चार फैक्ट्रियों में कितना उत्पादन होगा और क्या उस उत्पादन से जो अख्तवारी कागज की मांग है उसकी पूर्ति हो सकेगी ?

श्री के० के० शाह : इकोनॉमिक फैक्ट्री 150 टन पर डे के हिसाब में हो सकती है। चारों स्थापित हो गईं तो छः सौ टन पर डे का उत्पादन होगा।

SHRI S. K. TAPURIAH : The minister has been good enough to admit that there is a shortage of newsprint and that we import a large amount of it. But he has not said that there has been definitely a considerable delay in the expansion of the capacity of Nepa mills or in setting up news plants. May I know whether he was received any representations from the newspapers, particularly small newspapers, that they are

prepared to forgo their import licences if the indigenous white printing paper is made available to them at more competitive prices, i.e. at reduced prices? If that be so, may I know whether he has also consulted the various ministries concerned in this regard and since the paper industry is now feeling the pangs of recession, whether any proposal could be worked out in the shape of decontrol, so that the units can be made more viable and the price of white printing paper can be reduced to enable the small newspapers to purchase it and use it?

SHRI K. K. SHAH : For his information, I may say that there is no licensing so far as newsprint is concerned. Anybody can put up a newsprint factory. So far as white printing paper is concerned, out of 1.70 lakh tonnes that are required, we are importing 1.20 lakh tonnes from abroad. 30,000 tonnes are manufactured in Nepa and 20,000 tonnes are made available without duty. If they want more, they have to pay the duty.

SHRI SHANTILAL SHAH : Is the Government aware that in spite of the very poor quality of Nepa newsprint in respect of its finish, its weight and its strength they are still proposing to raise the price per tonne from Rs. 1050 to Rs. 1200?

SHRI K. K. SHAH : There are complaints about the quality of the newsprint manufactured by Nepa, but so far as the price is concerned a representation has been made by the Nepa Mills that they are not able to carry on and it will not be possible for them to carry on with the present price. So there is a proposal that it should be increased from Rs. 1050 to Rs. 1250. But they are going to manufacture new newsprint from imported pulp till the quality of the new pulp is improved (*Interruption*).

श्री झारखंडे राय : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत से इस बात की प्रार्थना की थी कि उत्तर प्रदेश के तराई जिलों में बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा माल पैदा होता है जिसका इस्तमाल अखबारी कागज तैयार

करने वाले कारखाने में किया जा सकता है और इस वास्ते वहां पर एक पब्लिक सैक्टर में कारखाना खोला जाए? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में भारत सरकार ने अब तक क्या निर्णय किया है?

SHRI K. K. SHAH : The Simon Handling Engineers of U.K. were requested to prepare a feasibility report of putting up a newsprint factory on the bagasse available both in Uttar Pradesh and Bihar. Their report showed the cost will be very high and whether enough quantity will be available or not. This is under consideration.

SHRI ANANRAO PATIL : Sir, the quality of newsprint produced in Nepanagar is very low and the price is very high. Still it has been made compulsory that small and medium, sized newspapers should purchase that newsprint. May I know whether it is not possible to exempt the small and medium-sized newspapers from purchasing Nepa newsprint?

SHRI K. K. SHAH : So far as small papers are concerned they are getting from the imported stuff and so there is no trouble.

SHRI J. H. PATEL : In view of the gross shortage of newsprint I would like to know from the hon. Minister whether the language papers are not discriminated against as compared to English papers? What is the quota allotted to English papers and what is the quota allotted to language papers?

SHRI K. K. SHAH : So far as newspapers are concerned we have classified them not on the basis of English and language papers, we have classified them as small papers, medium papers and big papers. Small papers are those up to a circulation of...

श्री मधु सिमये : वह छोटे और बड़े अखबारों की बात नहीं कर रहे हैं। प्रश्न की समझने की कोशिश करो। वह पूछ रहे हैं कि लोक भाषाओं में जो छप रहे हैं और अंग्रेजी में जो छप रहे हैं उनको कितना कोटा दिया जाता है।

SHRI K. K. SHAH : There is no question of discrimination between English and language papers. So far as small papers are concerned last time 50 per cent more increase was given, to the medium papers 25 per cent more increase was given and to the big papers only 10 per cent increase was given.

श्री चक्रिका प्रसाद : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में कारखाना खोलने की बात है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए क्या कोई प्रोजेक्ट विचाराधीन है? पटेल कमीशन की रिपोर्ट में भी यह है कि कागज का कारखाना वहां खोला जा सकता है क्योंकि वहां रा मटीरियल इसके लिए है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का वहां ऐसा एक कारखाना खोलने का विचार है?

SHRI K. K. SHAH : I have said that the feasibility report is under consideration.

श्री रामावतार शास्त्री : इसी मदन में पिछले साल कागज के सवाल को ले कर सरकार ने यह बताया था कि चम्पारन में रा मटीरियल अवेलेबल है। तब सवाल के जवाब में कहा था कि भारत सरकार विचार कर रही है कि वहां एक कारखाना स्थापित किया जाए। अभी जो आपने पांच जगहों के बारे में बताया है, उसमें चम्पारन का जिक्र आपने नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके बारे में क्या स्थिति है?

अशोक पेपर मिल बन्द हो गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार अशोक पेपर मिल को अपने कब्जे में ले कर कागज का उत्पादन बढ़ाने का विचार रखती है?

SHRI K. K. SHAH : The feasibility report for UP and Bihar is under consideration.

श्री रामावतार शास्त्री : मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब दिलाया जाये। दरभंगा में अशोक पेपर मिल बन्द है। सरकार नई मिलें खोल रही है, लेकिन वह इस बन्द मिल को टेकओवर क्यों नहीं करती है? बिहार में पब्लिक ओपीनियम इस बारे में बहुत एजिटेटिड है।

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब दे दिया गया है।

श्री द्वि० ना० तिवारी : देश में न्यूज-प्रिन्ट की मांग नित्य-प्रति बढ़ रही है और जब तक न्यूज-प्रिन्ट के उत्पादन में वृद्धि होगी, तब तक उस की मांग भी और बढ़ जायेगी। क्या मंत्री महोदय ने इस बारे में कोई सरवे करा के इस आशय का विवरण लिया है कि देश में कहां-कहां कच्चा माल उपलब्ध है, कहां-कहां न्यूज-प्रिन्ट फ़ैक्टरी खोलने की जरूरत है और क्या इस बारे में कोई इन्ट्रेंटिड प्लान तैयार किया गया है या नहीं?

SHRI K. K. SHAH : We have carried out a survey. Newsprint can be manufactured either from bagasse or soft wood or from rubber wood. The feasibility reports are being prepared. Even so far as Kerala is concerned, the report is under preparation.

SHRI S. KUNDU : The Minister has now stated that large quantities of newsprint are being imported. Is he aware that there is a lot of corruption in the distribution of newsprint and the traders sell it in the blackmarket and the big printing houses in India also sell them in the blackmarket and make a lot of money? If so, what is the Minister going to do to check this corruption and blackmarketing?

SHRI K. K. SHAH : So far as the last twelve months are concerned, I can assure my hon. friend that there is no blackmarket in newsprint and the proof is supplied by the fact that the allotted quantity is not lifted by some.

SHRI K. SURYANARAYANA : May I know the quantity of newsprint imported by the STC, by individuals and by private firms and how much foreign exchange was involved in these transactions?

SHRI K. K. SHAH : The entire quantity is imported by STC. It is 1,20,000 tonnes and the price is between Rs. 13 crores to 14½ crores.

SHRI LOBO PRABHU : In view of the Minister's admission of idle capacity

in white printing paper, may I know why that capacity is not being fully utilized? May I also enquire why you do not increase the exemption of excise duty from more than 20,000 tonnes to the full capacity.

SHRI K. K. SHAH : This is a suggestion which I shall pass on to the Finance Minister.

श्री शिंदरे : यह खुशी की बात है कि भारत में हर एक प्रकार के कागज का उत्पादन बढ़ गया है और उसकी क्वालिटी भी बहुत सुधर गई है, लेकिन अभी तक अखबारी कागज, और विशेषतया नेपा मिल में तैयार होने वाले अखबारी कागज, के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है और उसकी क्वालिटी भी विदेशी अखबारी कागज के समान नहीं है। इसलिए हमें अखबारी कागज का आयात करना पड़ता है; मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या नेपा मिल के कागज का उत्पादन बढ़ाने और विशेषकर उसका क्वालिटी को सुधारने के बारे में कोई कदम उठाए गए हैं या नहीं।

SHRI K. K. SHAH : Active steps are being taken. So far as increasing the capacity from 30,000 tonnes to 75,000 tonnes is concerned, we are going to use imported pulp so that the quality will improve.

श्री शिंदरे : उसकी क्वालिटी को सुधारने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

SHRI K. K. SHAH : So far as the pulp made in this country is concerned, experiments are going on and it has improved considerably.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : May I know whether the attention of the Government has been drawn to the fact that there are many dormant newspapers which make a bogus claim for newsprint and sell it in the black-market? Has any such instance been brought to the notice of the Government? What is the machinery with the Government to have proper control over newsprint?

SHRI K. K. SHAH : I cannot agree with the contention of the hon. Member. Because, while there are in all 8,640 newspapers only 1,600 have applied for grant of newsprint. That itself shows that there is no blackmarketing in newsprint.

श्री श्रीचन्द गोयल : हिमाचल प्रदेश के जिस स्थान पर यह कारखाना लगाने की योजना है, वह पहले पंजाब में था और आज से चार पांच साल पहले पंजाब सरकार ने इस बारे में एक प्राइवेट फर्म के साथ एग्रीमेंट कर लिया था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब आज से चार पांच साल पहले यह एग्रीमेंट हो गया था, तो यह कारखाना आज तक काम क्यों नहीं करने लगा है; क्या इस बारे में सरकार की तरफ से कोई ढिलाई रही है या प्राइवेट फर्म की तरफ से कोई कमी रही है।

श्री के० के० शाह : वह कम्पनी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर रही है।

SHRI SEQUEIRA : Is it a fact that new technology has been developed in India for the use of broad-leaved jungle species for the manufacture of newsprint? If such technology has been developed, may I know whether any of the new plants is going to use this technology?

SHRI K. K. SHAH : To the best of our knowledge, only wood pulp or rubber pulp of bagasse is used.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : न्यूज़प्रिंट के परचेज के लिए विदेशों से 31 मार्च 1968 तक जो एग्रीमेंट हुआ था, उस में उस का भाव गालिबन 53 पौंड पर मेट्रिक टन मुकर्रर किया गया था। क्या यह सही है कि 1968-69 के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है, उसमें डीबैल्युएशन की वजह से भाव को बढ़ा कर 63 पौंड पर-मेट्रिक टन कर दिया गया है; यदि हां, तो किस किस देश से ये एग्रीमेंट हुए हैं ?

SHRI K. K. SHAH : I require notice.

श्री एस० एम० जोशी : अभी हाल ही में जब मैं कोहिमा गया था, तो नागालैंड

के फिनांस मिनिस्टर ने बताया कि उनके यहां न्यूज़प्रीट के लिए बगास और बैम्बू वगैरह काफ़ी रा मैटीरियल है और किसी फ़र्म के जरिये उसका फ़ीज़िबिलिटी एग्ज़ामिनेशन भी हो चुका है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हुकूमत ने वहां पर कोई कारखाना लगाने का फ़ैसला किया है या नहीं; अगर किया है, तो इस बारे में कहां तक अमल हुआ है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जिन चार स्थानों पर कारखाने खोले जायेंगे, उन के बारे में फ़ैसला किस पालिसी के आधार पर किया गया है।

SHRI K. K. SHAH : So far as Kohima is concerned, I have not got the report here. I will take it into consideration.

SHRI S. KUNDU : Is there any policy for setting up plants ?

SHRI K. K. SHAH : So far as policy is concerned, the only question is finance. Otherwise, the raw material is available.

SHRI S. KUNDU : Who decides it ? Is it the Minister or experts ?

SHRI K. K. SHAH : Experts committee.

SHRI K. M. Koushik : In view of the fact that the hon. Minister has stated that bagasse forms one of the important raw materials for the manufacture of newsprint and since it is a recognised fact that in our country there is a lot of bagasse, will the Government think of establishing a newsprint factory from bagasse ? If it is not contemplated, is there any particular difficulty in establishing such a factory ?

SHRI K. K. SHAH : For the use of bagasse four factories are being established. We have chosen UP and Bihar on one side and Maharashtra on the other. Efforts are being made to find other collaborators who will bring down the cost.

श्री अचल सिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि कागज़ के मामले में भारतवर्ष कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा।

SHRI K. K. SHAH : When these four factories are set up there will be no difficulty.

श्री राम चरण : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि यू० पी० में गन्ना ज्यादा पैदा होता है, वहां पर गन्ने की कई मिलें हैं और गन्ने की छूछ से कागज़ बनाया जा सकता है; यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर कागज़ के कारखाने स्थापित कर के उसका इस्तेमाल करेगी ?

SHRI K. K. SHAH : I have said that it is under consideration.

पुराने सैनिक सामान का बेचा जाना

+

* 722. श्री महाराज सिंह भारती :

श्री शिवचरण लाल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार उस सैनिक सामान को किस तरह प्रयोग करती है जो नये आविष्कारों और नयी तकनीकी के फलस्वरूप पुराना हो जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय 60 करोड़ रुपये के पुराने और फालतू ऐसे सामान के भंडार पड़े हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें बेचने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) All surplus Defence stores including obsolete stores are first subjected to re-utilisation check. Such of the stores as cannot be re-utilised in any manner are normally declared to the D.G.S. & D for disposal who organises the auctions therefor after consulting the priority indentors. Surplus stores below the prescribed value are however disposed of directly by the Depots by auction.